



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 9—जून 15, 2007 (ज्येष्ठ 19, 1929)

No. 23]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9—JUNE 15, 2007 (JYAISTHA 19, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाग I---खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	599	प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *
भाग I---खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	523	भाग II---खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *
भाग I---खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3	भाग II---खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *
भाग I---खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	887	भाग III---खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 2331
भाग II---खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III---खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 445
भाग II---खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III---खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *
भाग II---खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III---खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 8131
भाग II---खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 457
भाग II---खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के		भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण *

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1-91GI/2007

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	599	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	523	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	2331
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	887	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	445
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	8131
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	457
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मई 2007

सं. एम-13016/1/2007/रा.ले.प्र.-9--

भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों से युक्त राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति (एसीएनएस) को एतद्वारा पुनर्गठित करती है :

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 1. | प्रो. के. सुन्दरम,<br>दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स<br>दिल्ली-110007   | अध्यक्ष<br>(गैर-सरकारी) |
| 2. | प्रो. बी. बी. भट्टाचार्य,<br>उपकुलपति,<br>जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय<br>नई दिल्ली   | सदस्य<br>(गैर-सरकारी)   |
| 3. | डॉ. एस. एल. शेट्टी, निदेशक<br>इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली<br>रिसर्च फाउन्डेशन, हितकारी हाउस, 284<br>शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 | सदस्य<br>(गैर-सरकारी)   |
| 4. | प्रो. आशिमा गोयल,<br>आईजीआईडीआर, जनरल ए. के. वैद्य मार्ग,<br>गोरेगांव(ईस्ट), मुंबई-400005   | सदस्य<br>(गैर-सरकारी)   |
| 5. | प्रो. संघमित्र दास,<br>योजना यूनिट, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान,<br>कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016                         | सदस्य<br>(गैर-सरकारी)   |
| 6. | श्री आर. पी. कल्याण<br>(पूर्व में रा. ले. प्र., के. सां. सं. से)<br>डी-23, ग्रेटर कैलाश, एन्क्लेव-II<br>नई दिल्ली-110048              | सदस्य<br>(गैर-सरकारी)   |
| 7. | श्री प्रताप नारायण,<br>(पूर्व में रा. ले. प्र., के. सां. सं. से)<br>बी-286, योजना विहार,<br>दिल्ली-110092                             | सदस्य<br>(गैर-सरकारी)   |

- |     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 8.  | श्री नरेश कुमार,<br>(पूर्व में रा.ले.प्र., के.सां.सं.से)<br>ए 5सी/27ए, जनकपुरी,<br>नई दिल्ली-110058                 | सदस्य<br>(गैर-सरकारी) |
| 9.  | महानिदेशक,<br>केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,<br>नई दिल्ली  | सदस्य<br>(सरकारी)     |
| 10. | महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,<br>रा.प्र.सर्वे.सं., नई दिल्ली   | सदस्य<br>(सरकारी)     |
| 11. | प्रधान सलाहकार<br>परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग,<br>योजना आयोग, नई दिल्ली   | सदस्य<br>(सरकारी)     |
| 12. | आर्थिक सलाहकार,<br>आर्थिक कार्य विभाग,<br>वित्त मंत्रालय,<br>नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली                                 | सदस्य<br>(सरकारी)     |
| 13. | प्रधान आर्थिक एवं सांख्यिकीय सलाहकार,<br>कृषि एवं सहकारिता विभाग,<br>कृषि भवन, नई दिल्ली                            | सदस्य<br>(सरकारी)     |
| 14. | कार्यकारी निदेशक,<br>(डीईएपी/डीएसएसीएस प्रभारी),<br>भारतीय रिजर्व बैंक,<br>मुंबई                                    | सदस्य<br>(सरकारी)     |
| 15. | प्रभारी अधिकारी,<br>आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग,<br>भारतीय रिजर्व बैंक,<br>मुंबई                                 | सदस्य<br>(सरकारी)     |
| 16. | प्रभारी अधिकारी,<br>सांख्यिकीय विश्लेषण एवं कंप्यूटर सेवा विभाग,<br>भारतीय रिजर्व बैंक,<br>मुंबई                    | सदस्य<br>(सरकारी)     |
| 17. | निदेशक,<br>अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग,<br>आंध्र प्रदेश सरकार,<br>खैरताबाद, पोस्ट बैग नं.-5,<br>हैदराबाद-500004 | सदस्य<br>(सरकारी)     |

18. निदेशक,  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,  
महाराष्ट्र सरकार, प्रशासनिक भवन,  
8वां तल, सरकारी कॉलोनी, बांद्रा ईस्ट,  
मुंबई-400051. सदस्य  
(सरकारी)
19. निदेशक,  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,  
असम सरकार, हाऊसहोल्ड कॉम्प्लेक्स,  
बेलताला रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006. सदस्य  
(सरकारी)
20. अपर महानिदेशक,  
राष्ट्रीय लेखा प्रभाग,  
के.सां.सं., नई दिल्ली सदस्य-सचिव  
(सरकारी)

2. एसीएनएस के लिए विचारार्थ विषय :

- (i) डाटा बेस की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय लेखा प्रणाली(एसएनए) 1993 की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षणों, प्रकार अध्ययनों इत्यादि के माध्यम से आंकड़ा संग्रहण संबंधी सलाह देना;
- (ii) आर्थिक विश्लेषण और नीति के प्रयोजनों हेतु राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन और प्रस्तुतीकरण हेतु कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के बारे में सलाह देना;
- (iii) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा संस्तुत, कवरेज, नए वर्गीकरणों को अपनाने के संदर्भ में सरकार की हाल ही की नीतियों/प्रयासों के प्रभाव तथा विभिन्न संस्थागत क्षेत्रों हेतु लेखा की क्रमबद्धता के विकास को ग्रहण करने की दृष्टि से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में सुधार लाने हेतु अध्ययन करवाने संबंधी सलाह देना;
- (iv) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी कार्यप्रणाली दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण पर दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाना, स्रोत और पद्धतियां नई श्रृंखला के अनुसार;
- (v) क्षेत्रीय लेखा के विकास हेतु दिशानिर्देश उपलब्ध करवाना; और
- (vi) राष्ट्रीय लेखा के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा समिति को संदर्भित किसी अन्य विषय पर सलाह देना ।

3. समिति के अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो तो, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विशिष्ट मुद्दों और विभिन्न विषयों से संबंधित कठिनाइयों से निपटने हेतु सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं ।

4. समिति के गैर-सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संगत नियमों और प्रवृत्त आदेशों के अनुसार टीए/डीए, सिटिंग फी आदि आहरित करेंगे तथा यह व्यय के.सां.सं., सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बजट अनुदान में से वहन किया जाएगा ।

5. समिति को सचिवालय सहायता केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी ।

6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों के टीए/डीए पर होने वाला व्यय, मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन जिससे वे संबंधित हों, द्वारा वहन किया जाएगा ।

7. इसे वित्तीय सलाहकार(सांख्यिकी) की सहमति से, बजट एवं वित्त अनुभाग की दिनांक 10-05-2007 की डायरी सं.642/बजट एवं वित्त/07 के तहत जारी किया जाता है ।

वस्त्र मंत्रालय  
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय  
नई दिल्ली-110066, दिनांक 16 मई 2007

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर/6664-- अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के समसंख्यक संकल्प के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिये किया गया था। भारत सरकार द्वारा डा0 जी पन्नीर सेल्वम, बिशप हाऊस, पाना बिल्लई, थक्कले, पोस्ट ऑफिस कन्याकुमारी, जिला (तमिलनाडू) को गैर सरकारी सदस्य के रूप में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में शामिल करने का निर्णय लिया गया है जबकि 8 सितम्बर, 2006, 23 अक्टूबर, 2006, 22 एवं 27 नवम्बर, 2006, 5, 12, 21 एवं 22 दिसम्बर, 2006, 5 एवं 10 जनवरी, 2007, 1, 14 फरवरी, 2007, 2, 7, 9 मार्च, 2007 तथा 8 मई, 2007 के संकल्प के तहत गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 53 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 78 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. संदीप श्रीवास्तव  
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

दिनांक 19 मई 2007

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर/6662-- पी एण्ड आर- 14 फरवरी, 2007 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की सदस्य संख्या में से उक्त संकल्प में क्रमांक 10 पर दर्शाए गए श्री ब्रिजेन्द्र सोनकर, 105/12, जूहीलाल कालोनी, थाना किदवई नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की सदस्यता एतद् द्वारा वापिस ली जाती हैं तथा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं। जबकि 8 सितम्बर, 2006, 23 अक्टूबर, 2006, 22 एवं 27 नवम्बर, 2006, 5, 12, 21 एवं 22 दिसम्बर, 2006, 5 एवं 10 जनवरी, 2007, 1, 14 फरवरी, 2007, (क्रम सं0 10—अर्थात् श्री ब्रिजेन्द्र सोनकर को छोड़कर) 2, 7, 9 मार्च, 2007, 8 मई, 2007 तथा 16 मई, 2007 के संकल्प के द्वारा गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 52 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 77 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. संदीप श्रीवास्तव  
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2007

संकल्प

सं. आर-22011/1/2007-ओआर-1--

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाईड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति का एतद्द्वारा 1.1.2007 से तीन साल की अवधि के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत पुनर्गठन किया जाता है। समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार होगा:-

क्रम संख्या	नाम, सर्वश्री	पद	संगठन	
1.	एम.बी. लाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	एचपीसीएल	अध्यक्ष
2.	डा. एम. ओ. गर्ग	निदेशक	आईआईपी, देहरादून	सदस्य (पदेन)
3.	प्रो. एस. के. बिस्वास	प्रोफेसर	यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग, आईआईएससी., बंगलोर	सदस्य
4.	प्रो. डी. एन. श्रॉफ, (भूतपूर्व प्रोफेसर आईआईटी, खडगपुर)	प्रोफेसर	पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य
5.	डा. एस. पुष्पवनम	प्रोफेसर	रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, मद्रास	सदस्य
6.	बी.एन. बांकापुर	निदेशक (आर)	आईओसीएल, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
7.	आर. के. सिंह	निदेशक (आर)	बीपीसीएल, मुंबई	सदस्य (पदेन)
8.	एम. के. जोशी	निदेशक (टी.)	ईआईएल, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
9.	डा. डी.एम. काले	ईडी (अनु. और विकास)	ओएनजीसी, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
10.	बी. साम बॉब	सचिव	ओआईडीबी	सदस्य (पदेन)
11.	डॉ. के.एस. बालारामन	कार्यकारी निदेशक	सीएचटी, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

**2. स्थायी आमंत्रिती**

- (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव (आर) और निदेशक समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रिती होंगे।
- (ख) निदेशक (रिफाइनरीज), एचपीसीएल और आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और ईआईएल के आर एंड डी प्रधान भी समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रिती होंगे। अध्यक्ष समिति की बैठक में भाग लेने अथवा समिति की सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

### 3. एसएसी के निबंधन और शर्तें-

(क) समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे-

"विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों तथा ईंधनों और रसायनों के रूप में उपयोग के लिए हाईड्रोकार्बन कच्ची सामग्री का इष्टतम संसाधन सुनिश्चित करने के लिए उनको क्रियान्वित करने के लिए उपायों पर सलाह देना।

(ख) समिति की बैठक यथावश्यक बार होगी परन्तु एक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य होगी तथा समय समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उपयुक्त सिफारिशें करेगी। सामान्यतः ये बैठकें वैकल्पिक रूप से दिल्ली और मुंबई में आयोजित की जाएंगी।

(ग) दिल्ली में बैठकों का आयोजन अधिमानतः विज्ञान केन्द्र में अथवा ईआईएल अथवा बीपीसीएल के आर एंड डी केन्द्र में क्रमशः गुडगांव और ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। मुंबई में बैठकें बीपीसीएल/एचपीसीएल रिफाइनरियों में आयोजित की जाएंगी।

(घ) पदेन सदस्यों/सरकारी पदाधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएसआईआर के प्रतिनिधियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते संबंधित विभाग/उपक्रम(मों) द्वारा पूरे किए जाएंगे। समिति पर कोई अन्य व्यय सीएचटी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ङ) गैर सरकारी सदस्यों/अकादमियों से सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय सीएचटी द्वारा किया जाएगा। उनको एसएसी की बैठक में भाग लेने और कार्य स्थान से बैठक के स्थान तक यात्रा करने के लिए किफायती श्रेणी के वायु भाड़े अथवा वास्तविक, जो भी निम्नतर हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(च) चूंकि प्रस्तावित अध्यक्ष-एसएसी गैर-सरकारी सदस्य है और सीएमडी, एचपीसीएल (एक सा.क्षे.उ.) है इसलिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता व्यय एचपीसीएल द्वारा तब तक वहन किया जाएगा जब तक वे एचपीसीएल में हैं। उसके बाद यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता व्यय सीएचटी द्वारा वहन किया जाएगा।

(छ) एसएसी बैठक में भाग लेने के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार स्थानीय परिवहन की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, यदि एसएसी सदस्य को परिवहन उपलब्ध कराया जाता है तो स्थानीय परिवहन के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ज) एसएसी की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए एसएसी के गैर-सरकारी सदस्यों को 1000 रुपये (एक हजार रुपये मात्र) के मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

(झ) अध्यक्ष-एसएसी निम्नोक्त व्यावसायिकों/तकनीकी विशेषज्ञों को उपयुक्त/मामूली मानदेय के भुगतान की सिफारिश कर सकते हैं-



- जिनसे प्रस्तावों के तकनीकी गुणावगुणों पर अपने विचार देने के लिए एसएसी को प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाता है।
- जिनको तेल उद्योग के लिए सुसंगत मामलों पर तकनीकी वार्ताओं के लिए अथवा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

(ज) समिति के लिए आवश्यक सचिवालयीन सहायता उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. के चिटकारा  
अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2007

सं. आर-22011/1/2007-ओ. आर.-1--

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाईड्रोकार्बनों संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एस ए सी) के गठन और तत्संबंधी निबंधनों और शर्तों के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 15 फरवरी, 2007 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 3 (ड.) में निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए:

"तथापि, अध्यक्ष (एस एसी) जो गैर-सरकारी सदस्य हैं, सेवानिवृत्ति के पूर्व के स्तर पर यात्रा का हकदार बना रहेगा और एस ए सी बैठकों में भाग लेने के लिए श्रेणी "अ" में वायुयान द्वारा यात्रा करने का हकदार होगा।"

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह अनुशिष्ट सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. के चिटकारा  
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2007

सं०. एफ०. 9-36/2006-यू.3(ए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, श्री देवराज अर्स अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तमका, कोलार, कर्नाटक, जिसमें श्री देवराज अर्स मेडिकल कालेज, तमका, कोलार, कर्नाटक शामिल है, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। यह उस तारीख से लागू होगा, जिस तारीख से श्री देवराज अर्स मेडिकल कालेज, तमका, कोलार, कर्नाटक स्वयं को राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलोर, कर्नाटक से असम्बद्ध कर लेगा।

2. यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
3. भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग श्री देवराज अर्स अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च अथवा इसकी किसी संघटक संस्था को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देगी।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF STATISTICS &amp; PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 22nd May 2007

No. M-13016/1/2007/NAD-9—

The Government of India hereby reconstitutes the Advisory Committee on National Accounts Statistics (ACNAS) with the following members:

- |    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Prof. K. Sundaram,<br>Delhi School of Economics<br>Delhi-110007   | Chairman<br>(Non-official) |
| 2. | Prof. B.B. Bhattacharya,<br>Vice Chancellor,<br>Jawaharlal Nehru University,<br>New Delhi   | Member<br>(Non-official)   |
| 3. | Dr. S.L. Shetty, Director,<br>Economin & Political Weekly<br>Research Foundation, Hitkari House, 284<br>Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai-400001 | Member<br>(Non-official)   |
| 4. | Prof. Ashima Goyal,<br>IGIDR, Gen. A.K.Vaidya Marg,<br>Goregoan(E), Mumbai-400005   | Member<br>(Non-official)   |
| 5. | Prof. Sanghamitra Das,<br>Planning Unit, Indian Statistical Institute,<br>Qutub Institutional Area, New Delhi-110016                            | Member<br>(Non-official)   |
| 6. | Shri R.P. Katyal,<br>(formerly from NAD, CSO)<br>D-23, Greater Kailash, Enclave-II,<br>New Delhi-110048.  | Member<br>(Non-official)   |
| 7. | Shri Pratap Narain,<br>(formerly from NAD, CSO)<br>B-286, Yojana Vihar,<br>Delhi-110092   | Member<br>(Non-official)   |

- |     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| 8.  | Shri Naresh Kumar,<br>(formerly from NAD, CSO)<br>A5C/27A, Janak Puri,<br>New Delhi-110058  | Member<br>(Non-official) |
| 9.  | Director General,<br>Central Statistical Organisation,<br>New Delhi   | Member<br>(Official)     |
| 10. | DG & Chief Executive Officer,<br>NSSO, New Delhi.   | Member<br>(Official)     |
| 11. | Principal Advisor,<br>Perspective Planning Division<br>Planning Commission, New Delhi   | Member<br>(Official)     |
| 12. | Economic Advisor,<br>Department of Economic Affairs,<br>Ministry of Finance,<br>North Block, New Delhi  | Member<br>(Official)     |
| 13. | Principal Economic and Statistical Adviser,<br>Department of Agriculture &<br>Cooperation,<br>Krishi Bhawan, New Delhi  | Member<br>(Official)     |
| 14. | Executive Director,<br>(In charge of DEAP/DESACS),<br>Reserve Bank of India,<br>Mumbai  | Member<br>(Official)     |
| 15. | Officer-in-Charge,<br>Department of Economic Analysis,<br>and Policy,<br>Reserve Bank of India,<br>Mumbai   | Member<br>(Official)     |
| 16. | Officer-in-Charge,<br>Department of Statistical Analysis and<br>Computer Services,<br>Reserve Bank of India,<br>Mumbai  | Member<br>(Official)     |
| 17. | Director,<br>Dte. of Economics & Statistics,<br>Government of Andhra Pradesh,<br>Khairtabad, Post Bag No.5, Hyderabad-500004  | Member<br>(Official)     |
| 18. | Director,<br>Dte. of Economics & Statistics,<br>Government of Maharashtra, Administrative Building,<br>8 <sup>th</sup> floor, Govt. colony, Bandra East,<br>Mumbai-400051 | Member<br>(Official)     |

- |     |  |                                |
|-----|--|--------------------------------|
| 19. | Director,<br>Dte. of Economics & Statistics,<br>Government of Assam, Household Complex,<br>Beltala Road, Dispur, Guwahati-781006 | Member<br>(Official)           |
| 20. | Additional Director General,<br>National Accounts Division,<br>CSO, New Delhi.   | Member-Secretary<br>(Official) |
2. The terms of reference for the ACNAS:
- (i) To review the data base and advise on data collection through sample surveys, type studies etc. for implementing the recommendations of the 1993 System of National Accounts (SNA);
- (ii) To advise on the methodology for compilation and presentation of National Accounts Statistics for purposes of economic analysis and policy and on promotion of research in the field of National Accounts Statistics;
- (iii) To advise on undertaking studies for improvement of National Accounts Statistics in terms of coverage, adoption of new classifications recommended by the UN Statistics Division to capture impact of recent policies/efforts of the government and development of sequence of accounts for various institutional sectors;
- (iv) To provide guidelines on the presentation of methodology document on National Accounts Statistics; sources and methods as per new series;
- (v) To provide guidelines for the development of regional accounts; and
- (vi) To advise on any other matter referred to the Committee by the National Statistical Commission in respect of national accounts.
3. The Chairman of the Committee may, if necessary, with prior approval of the Central Government, co-opt members for dealing with the specific issues and problems relating to different subjects.
4. The non-official members of the committee will draw TA/DA, sitting fee etc. for attending the meetings of the committee in accordance with the relevant rules and orders in force and the expenditure will be met within the budget grant of the CSO, Ministry of Statistics & P.I.
5. Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics & Programme Implementation.
6. The expenditure of the official members on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be borne by the parent Ministry/Department/Organisation to which they belong.
7. This issues with the concurrence of Financial Adviser (statistics) vide Budget & Finance Section Dy. No. 642/B&F/07 dated 10.05.2007.

M. V.S. RANGNATHAM  
Director

MINISTRY OF TEXTILES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 16th May 2007

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R/6664— The All India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 08<sup>th</sup> September, 2006 for a tenure of two years. The Government of India has decided to induct Dr. G. Panneer Selvam, Bishop's House, Pana Vilai, Thuckaly P.O., Kanya Kumari District (Tamil Nadu) as new non-official Member in the All India Handicrafts Board while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 08<sup>th</sup> September, 2006, 23<sup>rd</sup> October, 2006, 22<sup>nd</sup>, & 27<sup>th</sup> November 2006, 5<sup>th</sup>, 12<sup>th</sup>, 21<sup>st</sup> and 22<sup>nd</sup> December, 2006, 5<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup> January, 2007, 1<sup>st</sup> and 14<sup>th</sup> February, 2007, 2<sup>nd</sup>, 7<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup> March, 2007 and 08<sup>th</sup> May, 2007.

The present strength of the Board shall be 78 Members comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 53 non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 08<sup>th</sup> September, 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

DR. SANDEEP SRIVASTAVA

Additional Development Commissioner (Handicrafts)

The 19th May 2007

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R/6662— In partial modification of the Resolution of even number dated the 14<sup>th</sup> February, 2007 the membership of All India Handicrafts Board in respect of **Shri Brijender Sonkar**, 105/12, Juhi Lal Colony, Thana Kidwai Nagar, Kanpur (UP), appearing at Sl. No. 10 in the said resolution is **hereby withdrawn and cancelled with immediate effect**, while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 08<sup>th</sup> September, 2006, 23<sup>rd</sup> October, 2006, 22<sup>nd</sup> and 27<sup>th</sup> November, 2006, 5<sup>th</sup>, 12<sup>th</sup>, 21<sup>st</sup> and 22<sup>nd</sup> December, 2006, 5<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup> January, 2007, 1<sup>st</sup> and 14<sup>th</sup> February, 2007 (except Sl. NO. 10 – i.e. Shri Brijender Sonkar), 2<sup>nd</sup>, 7<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup> March, 2007, 8<sup>th</sup> and 16<sup>th</sup> May, 2007.

The present strength of the Board shall now be 77 members comprising of Chairman, 24 official members including Member Secretary and 52 non-official members in the reconstituted All India Handicrafts Board

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 08<sup>th</sup> September, 2006 will however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

DR. SANDEEP SRIVASTAVA

Additional Development Commissioner (Handicrafts)

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 15th February 2007

**RESOLUTION**

No. R-22011/1/2007-OR-1—

*The Scientific Advisory Committee on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas is hereby reconstituted for a period of three years with effect from 1-1-2007 on the terms and conditions specified hereunder. The composition of the Committee will be as under:-*

S. No.	Name, S/Shri	Designation	Organisation	
1.	M.B.Lal	CMD	HPCL	Chairman
2.	Dr.M.O.Garg	Director	IIP, Dehradun	Member (Ex-officio)
3.	Prof. S.K.Biswas	Professor	Dept. of Mechanical Engg., IISc., Bangalore	Member
4.	Prof. D.N.Shroff (Former Prof. IIT-Kanpur)	Professor	University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun	Member
5.	Dr.S.Pushpavanam	Professor	Dept. of Chemical Engg., IIT, Madras	Member
6.	B.N.Bankapur	Director (R)	IOCL, New Delhi	Member (Ex officio)
7.	R.K.Singh	Director (R)	BPCL, Mumbai	Member (Ex officio)
8.	M.K.Joshi	Director (T)	EIL, New Delhi	Member (Ex officio)
9.	Dr.D.M.Kale	ED (R&D)	ONGC, New Delhi	Member (Ex officio)
10.	B.Sam Bob	Secretary	OIDB	Member (Ex officio)
11.	Dr.K.S.Balaraman	ED	CHT, New Delhi	Member Secretary

**2. Permanent Invitees:**

- Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary (R) and Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas will be the permanent invitees to the Committee meetings.
- Director (Refineries), HPCL and R&D Heads of IOCL, BPCL, HPCL and EIL will also be the permanent invitees to the Committee meetings. The Chairman may also invite any other person (s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

### 3. Terms & Conditions of SAC :-

- (a) The terms of reference of the Committee will be as under:
- “To advise on policies relating to Science and Technology and measures to implement them to ensure optimum processing of hydrocarbon raw material for use as fuels and chemicals”
- (b) The Committee shall meet as often as necessary but at least once in a quarter and will make suitable recommendations to the Ministry of Petroleum & Natural Gas from time to time. Normally, these meetings will be held alternately at Delhi and Mumbai.
- (c) The meetings at Delhi will preferably be held either at Science Centre or at the R&D Centre of EIL or BPCL at Gurgaon and Greater Noida respectively. The meetings at Mumbai will be held at BPCL / HPCL Refineries.
- (d) Expenditure on TA / DA of Ex officio members / Government officials / representatives of Public Sector Undertakings / CSIR will be met by the respective concerned department / Undertaking (s). Any other expenditure on the committee will be borne by CHT.
- (e) The expenditure on TA / DA of non-officials/ members from Academia will be met by CHT. They will be reimbursed economy class airfare or actual, whichever is lower for attending the SAC meeting and traveling from their place of working to the place of meeting.
- (f) Since proposed Chairman-SAC is non-official member and is CMD-HPCL, a PSU, his TA / DA expenses will be borne by HPCL till such time he is with HPCL. Thereafter his TA / DA expenses would be met by CHT.
- (g) Local transport, as per actual for attending the SAC meeting will be reimbursed. However, in case SAC member is provided with transport, no reimbursement for the local transport shall be made.
- (h) An honorarium of Rs.1000/- (Rupees one thousand only) will be paid to the non-official members of the SAC for participating in each SAC meeting.
- (i) The Chairman-SAC may recommend payment of suitable / nominal honorarium to professionals / technical experts, who are:
- Requested to review proposal submitted to SAC for giving their opinion on technical merit of the proposals
  - Invited in the Committee's meeting to deliver technical talks or to provide important inputs on issues of relevance to the Oil Industry
- (j) The Secretarial assistance required to the Committee will be provided by the Centre for High Technology.



**ORDER**

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. CHITKARA  
Under Secy.

The 18th May 2007

**ADDENDUM**

No. R-22011/1/2007-OR-1—

In Para 3(e) of this Ministry's Resolution of even number dated 15<sup>th</sup> February, 2007 regarding composition of the Scientific Advisory Committee(SAC) on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas and related terms and conditions thereon, the following para may be added :

"However, Chairman(SAC) who is a non-official member may continue to maintain travel entitlement at the pre-retirement level and will be entitled to travel by air in "J" Class for attending the SAC meetings".

**ORDER**

Ordered that the Addendum be published in the Gazette of India for general information.

S. K. CHITKARA  
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 25th May 2007

No. F. 9-36/2006-U.3(A)—

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare Sri Devaraj Urs Academy of Higher Education and Research, Tamaka, Kolar, Karnataka, comprising Sri Devaraj Urs Medical College, Tamaka, Kolar, Karnataka, as a 'Deemed-to-be-University' for the purposes of the aforesaid Act, from the date of disaffiliation of 'Sri Devaraj Urs Medical College', Tamaka, Kolar, Karnataka, from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka.

2. This declaration is subject to the conditions mentioned at Sl. No. 5 of the endorsement of this notification.

3. Government of India or the University Grants Commission will not provide any Plan or Non Plan grants to Sri Devaraj Urs Academy of Higher Education and Research or any of its constituent institutions.

SUNIL KUMAR  
Joint Secy.